

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

24 FEB 1968

सं० 52]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 19, 1968/माघ 30, 1889

No. 52]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 19, 1968/MAGHA 30, 1889

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

ELECTION COMMISSION, INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February 1968

S.O. 661.—In pursuance of sub-rule (2) of rule 11 of the Conduct of Elections Rules, 1961, the following is published for general information:—

FORM 7-A

LIST OF CONTESTING CANDIDATES

[See rule 10(1) of the Conduct of Elections Rules, 1961]

Election to the House of the People from the 47—Hazaribagh constituency.

Serial Number	Name of candidate	Address of Candidate	Symbol allotted
1	2	3	4
1	Jugal Kishore Khandelwal	At & P.O. Chatra (Hazaribagh)	Lamp
2	Dunia Nand Singh	Ramgarh Cantt. (Hazaribagh)	Rising Sun
3	Deoki Devi	Noora, (Hazaribagh)	Scales
4	Dharni Dhar Prasad	Hazaribagh	Flower

1	2	3	4
5	Mohan Singh Oberoi	Durga Nivas Bank Road, Patna	Horse
6	Ram Krishna Singh	Makutpur, Giridih	Lion
7	Ram Narain Sharma	Dhanbad Dist.—Dhanbad	Two Bullocks with Yoke on

Place: Hazaribagh.

(Sd.) MAHENDRA TANEJA,

Date:

Returning Officer.

[No. 100/BR-HP/1/67.]

By Order,

A. N. SEN, Secy.